

HINDUSTHAN URBAN INFRASTRUCTURE LIMITED

CIN: L31300DL1959PLC003141

Kanchenjunga (7th Floor) 18, Barakhamba Road, New Delhi - 110001

63 +91-11-23310001-05 (5 Lines) 63 huil@hindusthan.co.in

www.hindusthanurban.com

Date: 7th September, 2023

The Listing Department, BSE Limited. Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai- 400001

Scrip Code: 539984

Sub: Newspaper Advertisement pursuant to Regulation 30 and 47 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('SEBI (LODR) Regulations, 2015').

In continuation of our letter dated 5th September, 2023 and in terms of Regulation 30 and 47 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copies of newspaper advertisements published on 6th September, 2023 in the newspapers, viz., the Financial Express (English) and Jansatta (Hindi) for giving Public Notice to the Members intimating about the 63rd Annual General Meeting and completion of dispatch of Notice of 63rd Annual General Meeting including e-Voting information and Annual Report for FY 2022-23 through electronic mode. The same has also been made available on the Company's website at www.hindusthanurban.com.

Kindly take the same on record.

Thanking you,

Yours Faithfully,

For Hindusthan Urban Infrastructure Limited

(M.L. Birmiwala) President-Finance & Secretary











SKYWEB INFOTECH LIMITED

CIN: L72200DL1985PLC019763 Registered Office: K-20, 2nd Floor, Lajpat Nagar-II, New Delhi-110 024 Corporate Office: D-348, Sector-63, Noida, Uttar Pradesh - 201 307 Website: www.skywebindia.in | E-mail ID: info@skywebindia.com | Ph. No. 011-29840906 NOTICE

Company will be held on Thursday, the 28th Day of September, 2023 at 01:00 P.M at K-20, 2th Floor, Lajpat Nagar-II, New Delhi-110 024. in compliance with General Circular Nos. 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 19/2021 21/2021 and 02/2022 dated April 08, 2020, April 13, 2020, May 05, 2020, January 13, 2021 December 08, 2021, December 14, 2021 and May 05, 2022 respectively, followed by Circula Nos. 10/2022 and 11/2022 dated December 28, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs and Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 05, 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), electronic copies of the Notice of AGM along with the Annual Report for the Financial Year 2022-23 have been e-mailed to all the shareholders whose e-mail addresses are registered with the Company/RTA/Depositon

Participants. The e-mailing of Notice of AGM have been completed on 05th September, 2023 in conformity with regulatory requirements. In terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Managemen and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing facility for remote e-Voting through Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") through its website

www.evotingindia.com to enable the members to cast their vote electronically The remote e-Voting period will commence from Monday, 25th September, 2023 at 9:00 A.M. (IST) and will end on Wednesday, 27th September, 2023 at 5:00 P.M. (IST), after which remote e-Voting will be blocked by CDSL. A member may participate in the general meeting even after exercising his/her right to vote through remote e-Voting but shall not be entitled to vote again in the meeting. The members present at the meeting, having not exercised their vote by e-Voting or ballot shall be entitled to vote by means of poll.

Shareholders, whose names are recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date i.e. 21st September. 2023 shall be entitled to avail the facility of remote e-Voting.

Shareholders who have acquired shares and become member of the Company after the dispatch of notice may obtain the login ID and password by sending an e-mail to CDSL at helpdesk.evoting@cdslindia.com or may contact at 022-23058738, 022-23058543/42. The said e-mail and numbers can also be contacted to address the grievances connected with facility for e-Voting:

The Notice of AGM along with the e-Voting instructions and Annual Report for the Financial Year 2022-23 is also available on the website of the Company a www.skywebindia.in and on the website of the Stock Exchange i.e. www.msei.in and on CDSL's website at www.evotingindia.com

> For Skyweb Infotech Limited Company Secretary & Compliance Officer

MAXPLUS LOGISTICS LIMITED

(Formerly known as MC-Stitch Limited) CIN: L65999DL1985PLC022321 Regd. Office: 1, Community Centre, East of Kailash, New Delhi 110 065 Tel.011-49057869, Email: mcstitch.excom@gmail.com

INFORMATION REGARDING 38[™] ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC)/ OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM), REMOTE E-VOTING Notice is hereby given that the 38th Annual General Meeting (AGM) of the Company

Website: www.maxpluslogisticslimited.com

scheduled to be held on Saturday, 30th September, 2023 at 11:30 A.M. (IST) through Video Conferencing (VC)/Other Audio-Visual Means (OAVM) only to transact the business as set out in the Notice of the AGM. In accordance with General Circular issued by the Ministry of Corporate Affairs bearing No. 10/2022 dated December 28, 2022 read with Circular No. 2/2022 dated 5th May, 2022, Circular No. 20/2020 dated 5th May 2020, Circular No. 02/2021 dated 13th January, 2021, Circular No. 19/2021 dated 8th December, 2021, and Jircular No. 21/2021 dated 14" December 2021, allowing conducting of AGM throug Video conferencing (VC) or other Audio-Visual Means (OVAM) without the physical Presence of the member of the meeting at a common venue. Members will be able to attend the AGM through VC/ OAVM facility only. Members participating through the VC/ OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies

In compliance with the relevant circular, the Notice of AGM and the Annual Report 2022-23 including the financial statements for the financial year 2022-23, along with Directors Report, Auditors' Report and other documents required to be attached thereto, will be sent only by email to all the Members of the Company whose email addresses are registered with the Company/ Depositary Participant(s). The aforesaid documents will also be made available on the website of the Company i.e. www.maxpluslogisticslimited.com and the websites of the stock exchanges where the shares of the Company are listed i.e. www.msei.in as well as on the website of National Securities Depository Limited i.e The members holding shares as on September 23rd, 2023 including those who will not

receive electronic copy of the annual report due to non-availability of their email address with the company can exercise their right to vote by following the instructions that will be given in the AGM notice.

Manner of casting vote(s) through e-voting

(RTA) of the Company at rdua@rcmcdelhi.com.

a. Members will have an opportunity to cast their vote(s) on the business as set out in the Notice of the AGM through electronic voting system ('e-voting') **b.** The manner of voting remotely ("remote e-voting") by members holding shares in

dematerialised mode, physical mode and for members who have not registered their email addresses will be provided in the Notice of the AGM The facility for e-voting will also be made available at AGM and Members attending

the AGM who have not cast their vote(s) by remote e-voting will be able to vote at the AGM d. The login credentials for casting votes through e-voting shall be made available to members through email. e. The same login credential may also be used for attending the AGM through VC

In case you have not registered your e-mail address with the Company/ Depository, please follow below instructions for obtaining the Annual Report and login-in details for joining

the AGM/ exercising e-voting facility: a) Physical holding: please send scan copy of a signed request letter mentioning your Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back) PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card), by email to the Company's email address at mcstitch.excom@gmail.con or to the email id of RCMC Share Registry Pvt Ltd- Registrar & Share Transfer Agen

b) Demat holding: Please contact your Depository Participant (DP) and register your e mail address in your demat account, as per the process advised by your DP. **c)** Company is not declaring any dividend.

d) Shareholders holding shares in the physical form are required to convert their holding in DEMAT form as transfer of shares in physical form has been prohibited by the SEBI Members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of the AGM and in particular, instructions for joining the AGM, manner of casting vote through remote e-voting or through e-voting during the AGM.

For and behalf of the Board Maxplus Logistics Limited

Sanjeev Chandra Director & CEO Place: New Delhi Date: 04.09.2023 DIN: 0009556



John Oaky and Mohan Ltd CIN: L15549DL1962PLC003726

Regd. office: Office No 4 FF, CSC, Pocket E Market, Mayur Vihar Phase 2 Delhi 110091

E mail: oakeymohan@gmail.com Websie: www.oakeymohan.in Phone: 0120 -2657298

NOTICE OF THE 61st ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the 61st Annual General Meeting (AGM) of the members of

John Oakey and Mohan Limited (the 'Company') will be held on Saturday, September 30 2023 at 3:00 p.m. IST through Video Conferencing(VC) / Other Audio-Visual Means (OAVM) to transact the businesses as set forth in the Notice calling 61st AGM, in due compliance of the General Circular numbers 4/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 20/2020 dated May 5, 2020, 02/2021 dated January 13, 2021, 21/2021 dated December 14, 2021, 2/2022 dated May 5, 2022, and 10/2022 dated December 28 2022 (collectively referred to as 'MCA Circulars') and the Securities and Exchange Board of India ('SEBI') circular nos. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIRP/P/2022/62 dated May 13, 2022 ('SEBI Circulars') and SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 5, 2023. In compliance with the Circulars, electronic copies of the Notice of the AGM and Annual Report 2022-23 have been sent to all the members whose email IDs are registered with the Company/Depository Participant(s). These documents are also available on the website of the Company at, https://www.oakeymohan.in/ investors.html and on the website of stock exchange at https://www.msei.in/. The dispatch of Notice of the AGM through emails has been completed on September 06, 2023.

As per Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administrative) Rules, 2014, as amended from time to time. Secretarial Standard-2 and Regulations 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation 2015 ('SEBI Listing Regulations') the Company is pleased to provide its Members with the facility to cast their votes electronically on all resolutions set forth in the Notice calling 61st Annual General Meeting.

Members holding shares either in physical form or dematerialized form, as on the cut-off date (September 23, 2023), may cast their votes electronically on the business as set forth in the Notice of the AGM through the electronic voting system of CDSL ('remote e-voting'). The remote e-voting shall commence on Wednesday, September 27, 2023 (10:00 a.m. IST) and end on Friday the September 29, 2023 (5:00 p.m. IST). The remote e-voting module shall be disabled by CDSL beyond 5:00 p.m. IST on September 29, 2023. The facility for voting will also be made available during the AGM, and those members present in the AGM through VC facility, who have not cast their vote on the resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through the e-voting system during the AGM. The Members may kindly refer the Notice calling 61st AGM for detailed information. Members who have not registered their email addresses are requested to register their email addresses with respective depository participant(s) and members holding shares in physical mode are requested to update their email addresses with Company's RTA by writing them at Investor@beetalfinancial.com to receive copies of the Annual Report 2022-23 along with the Notice of the 61st AGM instructions for remote e-voting and instructions for participation in the AGM through VC The members who require technical assistance to access and participate in the meeting

NOTICE is also hereby given that pursuant to Section 91 of the Act read with Rules made thereunder and Regulation 42 of SEBI (LODR) 2015, the Register of Members and Share Transfer books will remain closed from Sunday, 24th September 2023 to Saturday, 30th September 2023 (both days inclusive).

through VC may contact the helpline number given in the Notice calling 61st AGM.

Office No 4 . FF . CSC Pocket E Market.

For John Oakey and Mohan Ltd Mayur Vihar Phase 2 Delhi 110091

> **Managing Director** DIN-03633427

BY Order of the Board of Directors

failed to repay the entire notice amount together with further interest and other charges,

said rules on 04th Day of September 2023.

Place: Mumbai

ORIX

Date: September 6, 2023

Palse Only) within 60 days of the receipt of the said notice together with further interest and other charges from the date of demand notice till the date of payment/realization. The borrowers and co-borrowers despite being served with the said notice and having notice is hereby given to the borrowers and public in general that the undersigned has

By Order of the Board

 The borrowers and co-borrowers in particular and public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealing in the property would be subject to the charge of notice of Rs. 79,63,512.05/- (Rupees Seventy Nine Lac Sixty Three Thousand Five Hundred Twelve and Five Paise Only) together with further interest and other charges from the date of demand notice till the date of payment/ realization.

taken physical possession of the property described here in under in exercise of

powers conferred on him/her under section 13(4) of the said act read with rule 9 of the

Description Of The Property

ALL THAT PIECE AND PARCEL OF PROPERTY BEARING NO. 4/170, MEASURING 100 SQ, YDS, OUT OF KHASRANO, 12/24, SITUATED AT VILLAGE KHUREJI KHAS, N THE ABADI OF LALITA PARK, LAXMI NAGAR, IN THE AREA OF VILLAG SHAKARPUR KHAS, ILLAQA SHAHDARA, DELHI-110092, AND BOUNDED AS NORTH: PROPERTY OF OTHERS, SOUTH: PROPERTY OF OTHERS, EAST PROPERTY OF OTHERS, WEST: GALINO. 3 OF 15FT, WIDE Date: 04.09.2023

Place : DELHI Loan Account No : LN0000000005269

Authorised Officer ORIX Leasing & Financial Services India Limited

MOHAN SHRAMIK UDYOG LIMITED Regd. Off: FF-3, Plot no-319, Sector-3, Vasundhara, Ghaziabad-201012 Tel. 0120-2657018, CIN: U51101UP1976PLC004244

E-mail: mohanshramik@gmail.com

NOTICE OF THE 47th ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE NOTICE is hereby given that the 47th Annual General Meeting (AGM) of the members of Mohan Shramik Udyog Limited (the 'Company') will be held on Saturday, September 30, 2023 at 12:00 Noon IST through Video Conferencing (VC) / Other Audio-Visual Means (OAVM) to transact the businesses as set forth in the Notice calling 47th AGM, in due compliance of the various MCA Circulars latest being 10/2022 dated December 28, 2022. In compliance with the Circulars, electronic copies of the Notice of the AGM and Annual Report 2022-23 have been sent to all the members whose email IDs are registered with the Company. The dispatch of the Notice of the AGM through emails has been completed on September 5, 2023.

As per Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administrative) Rules, 2014, as amended from time to time, Secretarial Standard-2, the Company is pleased to provide its Members with the facility to cast their votes electronically on all resolutions set forth in the Notice calling 47" Annual General Meeting.

Members holding shares either in physical form or dematerialized form, as on the cut-off date (September 23, 2023), may cast their votes electronically on the business as set forth in the Notice of the AGM through the electronic voting system of CDSL ('remote e-voting'). The remote e-voting shall commence on Wednesday, September 27, 2023 (9:00 a.m. 1ST) and end on Friday, September 29, 2023 (5:00 p.m. 1ST). The remote e-voting module shall be disabled by CDSL beyond 5:00 p.m. 1ST on September 29, 2023. The facility for voting will also be made available during the AGM, and those members present in the AGM through VC facility, who have not cast their vote on the resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through the e-voting system during the AGM. The Members may kindly refer to the Notice calling the 47th AGM for detailed information. Members who have not registered their email addresses are requested to register their email addresses with the company by writing at mohanshramik@gmail.com to receive copies of the Annual Report 2022-23 along with the Notice of the 47th AGM, instructions for remote e-voting and instructions for participation in the AGM through VC. The members who require technical assistance to access and participate in the meeting through VC may contact the helpline number given in the Notice calling the 47th AGM.

NOTICE is also hereby given that pursuant to Section 91 of the Act read with Rules made there under, the Register of Members and Share Transfer books will remain closed from Thursday, 28" September 2023 to Saturday, 30" September 2023 (both days inclusive).

BY Order of the Board of Directors For Mohan Shramik Udyog Limited

Ram Chander

Director

Date: 05.09.2023 Place: Ghaziabad.

TRINITY LEAGUE INDIA LIMITED

Regd. Off.: A-23, Mandakini Enclave, Alaknanda, GK II, New Delhi-110019 Corporate Office: Trinity Tower, B-2, Sector-7, Noida, Uttar Pradesh -201301 Contact- 0120-6923900-902, website: www.trinitygroup.ind.in, E-mail: trinityleague@trinitygroup.ind.in Notice of the 35° Annual General Meeting (AGM)

It is hereby informed that the Thirty Fifth Annual General Meeting (35" AGM) of Trinity League India Limited will be held on Friday the 29th day of September 2023 at 11:30 AM. Through Video

in the Notice of the AGM only through e-voting facility. The AGM will be held only through VC / OAVM in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 and circulars dated May 5, 2020, April 8, 2020 and April 13, 2020) issued by the Ministry of Corporate Affairs and SEBI Circular dated May 12, 2020 and Circular No. 02/2021 dates January 13, 2021 & Circular dated May 5, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs. The instructions for joining the AGM electronically are provided in the Notice

Notice of the AGM along with the Annual Report 2022-23 is being sent only through electronic mode to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company or CDSL/NSDL ('Depositories") and will also be available on the Company's website www.trinitygroup.ind.in and website of the Bombay Stock Exchange i.e. at www.bseindia.com. Members who have not registered their e-mail addresses and in consequence the Annual Report including Notice of AGM and e-voting instructions could not be serviced, may get their email address and mobile number registered with the Company's Registrar and Share Transfer Agent, Beetal Financial & Computer Services (P) Limited, by sending mail on investor@beetalfinancial.com for the same along with scanned copy of the signed request letter providing the email address, mobile number, self-attested PAN copy and Client Master copy in case of electronic folio and copy of share certificate in case of physical folio for obtaining the Annual Report, Notice of AGM and the e-voting instructions.

The remote e-voting period will commence from 26" September, 2023 at 10:00 am and will end at 5.00 pm on 28" September, 2023. During this period the eligible shareholders of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, may cast their vote electronically. The e-voting module will be disabled by CDSL for voting thereafter i.e. voting shall not be allowed beyond 5:00 p.m. on September 28, 2022. Facility for e-voting shall also be made available during the AGM to those Members who attend the AGM and who have not already cast their vote. The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend/ participate in the AGM through VC / OAVM but shall not be entitled to cast

The cut-off date for determining the eligibility of members for voting through remote e-voting and e-voting at the AGM is Friday, September 22, 2023. Any person, who becomes a member of the Company after the dispatch of Notice and holding shares as on cut-off date, may obtain the login ID and password by sending a request to investor@beetalfinancial.com to cast his/her vote. The detailed procedure for obtaining the login ID and password and exercising e-voting is

Members holding shares in electronic form are requested to intimate any change in their bank mandates to their Depository Participants with whom they are maintaining their demat accounts. The Company or its RTA cannot act on any request received directly from the Members holding shares in electronic form for any change of bank particulars or bank mandates. Such changes are to be advised only to the Depository Participant of the Members. The Members holding shares in physical form are requested to advise any change in their bank mandate immediately to Beetal House, 3rd Floor 99 Madangir, Behind Local Shopping Centre. Near Dada Harsukhdas Mandir, New Delhi- 110062. By Order of the Board of Directors.

For Trinity League India Limited

Piyush Kumar Srivastava Company Secretary & Compliance Officer

Form No. INC-25A Advertisement to be published in the newspaper for Conversion of Public Company into a Private Company Before the Regional Director, Ministry of Corporate Affairs Northern Region, New Delhi

In the matter of the Companies Act, 2013, Section 14 of Companies Act, 2013 and Rule 41 of the Companies (Incorporation) Fourth Amendment Rules, 2018

the matter of M/s CHEM COLOUR (INDIA) LIMITED (CIN: U24119DL1991PLC221352) having its registered office at 217, Gali No. 2, Guru Ram Das Nagar Laxmi Nagar, East Delhi

Notice is hereby given to the general public that the company is intending to make an application to the Central Government under section 14 of the Companies Act, 2013 read with aforesaid rules and is desirous of converting into a Private Limited Company in terms of the special resolution passed at the Extra Ordinary General Meeting held on 31st of August, 2023 to enable the company to give effect for such conversion.

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed status of the company from Public to Private Limited Company may deliver or cause to be delivered or send by registered post of his objections supported by an affidavit stating the nature of his interest and grounds of opposition to the concerned Regional Director, Northern Region, Delhi at B-2 Wing, 2nd floor, Pt Deendayal Antyodaya Bhawan, 2nd Floor, CGO Complex, New Delhi - 110003 within 14 (fourteen) days from the date of publication of this notice with a copy to the applicant company at its registered office at the address mentioned below:

217, Gali No. 2, Guru Ram Das Nagar Laxmi Nagar, East Delhi, Delhi -110092

For and on behalf of the Applicant Date: 06.09.2023 Ramesh Kumar Agarwal (Director)

Place: Delhi Complete address of Registered Office: 217, Gali No. 2, Guru Ram Das Nagar Laxmi Nagar East Delhi, Delhi 110092

COMPANY LIMITED

MANIPUR STATE POWER DISTRIBUTION

(e-Tender) Imphal, the 17 August, 2023

No. 2/315(SI-UBS)/RDSS/2023-MSPDCL-TECH/812-88

Last Date & time for submission of Techno-

Government of Manipur enterprise, invites online Proposals for "Appointment of System Integrator (SI) for implementation of Utility Billing system in Manipur under SaaS model" through global open competitive procurement.

commercial Bids and Financial Bids (on line) upto 11.00 am and also submission of Techno-commercial Bids in Hard Copy (for Verification):

www.manipurtenders.gov.in/ www.manipur.gov.in Interested bidders may visit the website regularly and remain updated for any amendments/ modifications /Corrigendum etc on the above

mentioned Tender. No separate notifications will be given for such amenduments/ modifications /Corrigendum etc. in the print media (Press) or intimated to the bidders separately.

12.09.2023



KOTHARI FERMENTATION AND BIOCHEM LIMITED CIN: L72411DL1990PLC042502

New Delhi - 110 017 | Tel: 011-26850004, **E-Mail:** info@kothariyeast.in, **Website:** www.kothariyeast.in

through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM"), to transact the businesses as set out in the Notice of AGM. The Notice is available on the website of the Company at <u>www.kothariyeast.in</u> and of NSDL. All the members are informed that: The ordinary and the special Business as set out in the Notice of AGM will be transacted through voting by electronic means.

3. Date and time of commencement of e-voting: 25 th September, 2023 (Monday) from 9:00 a.m and ending on 27th September, 2023 (Wednesday) at 5.00 p.m.

2. Date of completion of electronic dispatch of the AGM Notice: 4th September, 2023

Company after dispatch of the notice, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in. The detailed procedure for obtaining User ID & Password is also provided in the Notice of the AGM.

27th September, 2023: b) the facility for voting through electronic mode shall be made available at the AGM: c) the members who have casted their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again: and d) a person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the

contact Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager of National Securities Depository Limited, Trade World, 'A' Wing, 4th floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat marg, Lower parel, Mumbai-400013, at the designated email pallavid@nsdl.co.in For Kothari Fermentation & Biochem Ltd.

Place: New Delhi **Date**: 05.09.2023

Silky Gupta **Company Secretary**

HINDUSTHAN URBAN INFRASTRUCTURE LIMITED (An enterprise of THE HINDUSTRIAN GROUP) Registered Office: Kanchenjunga, (7th Floor) 18, Barakhamba Road, New Delhi - 110001

NOTICE OF THE 63RD ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING ('VC')/OTHER AUDIO VISUAL MEANS ('OAVM') AND E-VOTING INFORMATION

(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with Circular No. 10/2022 dated 28th December, 2022 and all other applicable Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA Circulars') and SEBI Circular SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated 5th January, 2023 and all other applicable Circulars issued by Securities and Exchange Board of India ('SEBI'), Notice is hereby given that the 63rd Annual General Meeting (AGM) of the members of Hindusthan Urban Infrastructure Limited is scheduled to be held on Saturday, 30th September, 2023 at 11:00 A.M. through Video Conferencing/Other Audio Visual Means (VC/OAVM) to transact the businesses as set forth in the notice

The Notice of the Annual General Meeting along with the Annual Report for the Financial Year 2022-23 have been sent only through electronic mode to those Members whose email IDs are registered with the Company/Registrar & Transfer Agent ('RTA')/Depository participant ('DP'), in compliance with the above circulars. The emailing of the Notice has been completed on 5th September, 2023. The aforesaid documents are also available on the website of the Company at www.hindusthanurban.com, website of the Stock Exchange i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and on the website of National Securities

Voting facility (prior to AGM) and e-Voting facility (during the AGM), on all the resolutions set forth in the AGM Notice to the Members. Members who have not registered their email IDs are requested to register/update the same with their respective DPs, in case of shares held in demat mode and with Skyline Financial Services Pvt. Ltd., RTA of the Company at compliances@skylinerta.com or info@skylinerta.com in case the shares are held in physical mode. The cut-off date for determining the Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the business, as set out eligibility of members for voting through remote e-voting and voting at the AGM is Saturday, 23" September, 2023. The remote e-voting period will commence on Wednesday, 27th September, 2023 at The instructions for manner of participation and voting for Members holding shares in dematerialized

> who have not registered their email IDs has also been provided in the Notice convening the AGM including other relevant details. For Hindusthan Urban Infrastructure Limited

Date: 05.09.2023 M.L.Birmiwala President- Finance & Secretary

MISHKA EXIM LIMITED

Email: mishkaexim@gmail.com NOTICE OF 9TH ANNUAL GENERAL MEETING, E- VOTING AND BOOK CLOSURE DATES

Notice is hereby given that the 9th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Saturday the 30th day of September, 2023 at 11:00 A.M at Le Chef, 3rd Floor, Cross River Mall, CBD Ground Shahdara, Delhi- 110032 to transact the business as set out in the Notice. The Notice of AGM, Annual Report, Attendance Slip and Proxy form has been sent in electronic mode to members who's E- Mail Ids registered with the Company or the Depository's Participants unless the Members have registered their request for a hard copy of the same. Physical copies have been sent to those members who have not registered their E- Mail IDs with the Company or Depository's Participants. The copy of the Annual Report is also being placed on the website of the Company i.e. mishkaexim.com

Notice is given pursuant to section 91 of the Companies Act, 2013 and read with the clause 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 24th

pursuant to the provisions of the Act and the said rules are given here under: a) Date of Completion of dispatch of Notice on Tuesday, 5th day of September, 2023.

September 2023 at 05:00 p.m. During this period shareholders' of the Company, holding

shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date (record date) i.e. 22rd September 2023 may cast their vote electronically In case any member has any queries or issues regarding e- Voting, please contact

Department by letter or through email: mishkaexim@gmail.com.

Raineesh Gupta **Managing Director**

MGF THE MOTOR & GENERAL FINANCE LIMITED

REGD. OFFICE: MGF House, 4/17-B, Asaf Ali Road, New Delhi-110002 Phone No.: 23272216-18, 23276872

E-mail: mgfltd@ hotmail.com Website: http://www.mgfltd.com CIN No.:L74899DL1930PLC000208 | GST No.: 07AAACT2356D2ZN

NOTICE

NOTICE OF 93™ ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the 93" Annual General Meeting ("AGM") of the Members of The Motor & General Finance Limited is scheduled to be held on Wednesday, the September 27, 2023 at 11.30 A.M. at the Registered Office i.e. MGF House, 4/17-B, Asaf Ali Road, New Delhi-110002 through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") without the physical presence of Members at a common venue to transact the business, as set out in the Notice of AGM.

issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) dated 5" January, 2023, the Company has completed dispatch of Notice of 93th AGM and Annual Report of the Company, inter alia, containing the financial statements and other statutory reports for the year ended 31" March, 2023 on 4" September, 2023 through electronic mode only to those members whose email addresses are registered with the Company/RTA/DP.

(https://www.mgfltd.com/ Audited%20 Results.html) and the website of the Stock Exchanges, where the shares of the Company are listed i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and NSE Ltd at www.nseindia.com also on the website of the Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") at www.evotingindia.com.

AGM. Members participating through the VC/OAVM shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Act. The facility for appointment of Proxies by the Members will not be available since the AGM is being held by VC/OAVM. VOTING THROUGH ELECTRONIC MODE:

The Company is providing the facility of remote e-voting to its members in respect of the business to be transacted at the AGM and for this purpose, the company has appointed CDSL to facilitate voting through electronic means, Accordingly, the facility of casting votes by a member using remote e-voting system before the AGM and e-voting during the AGM will be provided by CDSL. The remote e-voting facility would be available during the following period:

26, 2023 and once vote on a resolution has been casted by Member, the Member will not be allowed to change it subsequently. Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may attend the AGM through VC/OAVM but are not entitled to cast their vote again. Members who have not casted their votes through remote

Remote e-voting shall not be allowed beyond 05.00 p.m. on September

to vote through e-voting at the AGM. 3. Members whose names appear in the Register of Members or in the register of beneficial owners, maintained by the Depositories as on the "cut-off date" i.e. Wednesday, September 20, 2023 shall only be entitled to avail of the remote e-voting facility or vote as the case may be

Members who are holding shares in physical form are requested to get their email addresses registered with the Registrar and Share Transfer

Further pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 & Regulation 42 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, that the Register of Members and Share Transfer Books of the company will remain closed from Thursday, September 21, 2023 to Wednesday, September 27, 2023 (both days

if any, with regard to e-voting, may be addressed through email at helpdesk.evoting@cdslindia.com or call 1800 22 5533

By Order of the Board

(M.K. MADAN) VP.CS & COMPLIANCE OFFICER & CFO Place: New Delhi

ACS - 2951 Date: September 4, 2023

GSTIN: 07AAACI0149R1ZB Regd. Office: MGF House, 4/17-B, Asaf Ali Road, New Delhi - 110002.

NOTICE OF 38TH ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE

E-VOTING AND BOOK CLOSURE

("AGM") of the Members of India Lease Development Limited is scheduled to be held on Wednesday, the September 27, 2023 at 12.30 P.M. at the Registered Office i.e. MGF House, 4/17-B, Asaf Ali Road, New Delhi-110002 through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") without the physical presence of Members at a common venue to transact the business, as set out in the Notice of 38"

In accordance with the various circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) latest being 28" December, 2022 and circulars issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) dated 5" January, 2023, the Company has completed dispatch of Notice of the 38" AGM and Annual Report of the Company, inter alia, containing the financial statements and other statutory reports for the year ended 31" March, 2023 on 4" September, 2023 through electronic mode only to those members whose email addresses are registered with the

The aforesaid documents are available on the website of the Company i.e. www.indialease.com under the "Annual Reports" section (https://www.indialease.com/AnnualReports22-23New.html) and the website of the Stock Exchange, where the shares of the Company is

www.evotingindia.com. Members can attend and participate in the AGM through VC/OAVM facility only. The instructions for joining the AGM are provided in the Notice of AGM. Members participating through the VC/OAVM shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Act. The facility for appointment of Proxies by the Members will not be available

The Company is providing the facility of remote e-voting to its members in respect of the business to be transacted at the AGM and for this purpose, the company has appointed CDSL to facilitate voting through electronic means, Accordingly, the facility of casting votes by a member using remote e-voting system before the AGM and e-voting during the AGM will be provided by CDSL. The remote e-voting facility would be available during the following period:

Member, the Member will not be allowed to change it subsequently.

AGM may attend the AGM through VC/OAVM but are not entitled to cast their vote again. Members who have not cast their vote through remote e-voting and are present in the AGM through VC/OAVM shall be eligible to vote through e-voting at the AGM.

register of beneficial owners, maintained by the Depositories as on the "cut-off date" i.e. Wednesday, September 20, 2023 shall only be entitled to avail of the remote e-voting facility or vote as the case may be at the AGM. The voting rights of Members shall be in proportion to their shares of the paid up equity share capital of the Company as on the cut-off date i.e. Wednesday, September 20, 2023. Members who are holding shares in physical form are requested to get their email addresses registered with the Registrar and Share

BOOK CLOSURE

Further pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 & Regulation 42 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, that the Register of Members and Share Transfer Books of the company will remain closed from Thursday, September 21, 2023 to Wednesday, September 27, 2023 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

38" AGM as well as in the email sent to the Members. Queries/ grievances, if any, with regard to e-voting, may be addressed through email at helpdesk.evoting@cdslindia.com or call 1800225533

By Order of the Board For India Lease Development Limited

> Rohit Madan Manager, Company Secretary,

Place: New Delhi ACS - 13636 Date: September 4, 2023

Notice is hereby given that the 38th Annual General Meeting ("AGM") of the members of the

Date: 05.09.2023

Place: New Delhi

to those members who have registered their email Id with the Company. The Book Closure date is Sunday, 24th September, 2023 to Saturday, 30th September, 2023 (both days inclusive). The copy of the 38th Annual Return is available on Company's website www.meenakshisteel.in The Company is providing to its members facility to exercise their right to vote on resolution proposed to be passed at this Annual General Meeting by Electronic Mean (e-voting). The Members may cast their vote using an electronic voting system from the place other than Venue of the Meeting (Remote

CIN - L52110DL1985PLC020240 Regd Office: J-189, Basement, J Block, Saket, New Delhi 110 017

MEENAKSHI STEEL INDUSTRIES LIMITED

NOTICE is hereby given that the 38th Annual General Meeting of the Members of the Company will be held at the Registered Office of the Company at J-189, Basement, J Block, Saket, New Delhi 110 017 on Saturday, 30th September, 2023 at 3.00 pm The Annual Report for the financial year 2022-23 including the Notice convening this Annual General

Meeting has been sent to the members at their registered address by post / courier and electronically

The Remote e-voting facility shall commence on Wednesday, 27th, September, 2023 from 9.00 am

and end on Saturday, 29th September, 2023 at 5.00 pm. The cut-off date for Remote E-voting shall

be 23rd September, 2023. The remote e-voting shall not be allowed beyond the aforesaid date and

A person whose name appear on Register of Members / Beneficial Owners as on 5th September, 2023

ORIX LEASING & FINANCIAL SERVICES INDIA LIMITED

(formerly known as OAIS Auto Financial Services Limited)

(A Subsidiary of ORIX Auto Infrastructure Services Limited)

Regd. Office: Plot No. 94, Marol Co-operative Industrial Estate,

Andheri-Kurla Road, Andheri (E), Mumbai - 400 059 Tel.: + 91 22 2859 5093 / 6707 0100 | Fax: +91 22 2852 8549

Email: info@orixindia.com | www.orixindia.com | CIN: U74900MH2006PLC163937

POSSESSION NOTICE

[RULE 8(1) SECURITY INTEREST (ENFORECEMENT) RULES, 2002]

The undersigned being the authorised officer of ORIX Leasing & Financial Services

India Limited, under the Securitization And Reconstruction Of Financial Assets And

Enforcement Of Security Interest Act, 2002, and in exercise of powers conferred by

section 13(12) of the said act read with rule 9 of THE SECURITY INTEREST

(ENFORCEMENT) RULES, 2002 issued a notice dated 20 December 2022 calling

upon Monika Sharma, Parveen Sharma & Kanta Sharma as borrower/ co-borrowers/

mortgagers to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 79,63,512.05/-

(Rupees Seventy Nine Lac Sixty Three Thousand Five Hundred Twelve and Five

By order of the Board of Directors

Sudha Jajodia

(DIN - 00376571)

Director

For MEENAKSHI STEEL INDUSTRIES LIMITED


only shall be allowed to avail the facility of remote e-voting / Voting at the meeting.

Secured Office Building, 3rd Floor, A.T. Line, North A.O.C, Imphal West, Manipur-795001 **NOTICE INVITING TENDER**

Manipur State Power Distribution Company Limited (MSPDCL), a

details intersted bidders may visit website

> (Dr. Shailesh Kumar Chourasia) **Mnaging Director, MSPDCL**



Notice is hereby given that the 33rd Annual General Meeting (AGM) of the Member 's of Company will be held on Thursday, the 28th day of September, 2023 at 11:30 A.M

NOTICE

 Cut-off Date: 21st September, 2023. 5. Any person, who acquires shares of the Company and become member of the

. Member may note that: a) the remote e-voting shall not be allowed beyond

For any queries, the members may contact for any grievance at toll free no. 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000 or write to the Company at info@kothariyeast.in or

CIN: L31300DL1959PLC003141, E-mail: investors@hindusthan.co.in Website: www.hindusthanurban.com. Phone: +91-11-23310001-05

In compliance with applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules made thereunder, SEB

The Company has provided the facility to its Members to cast their vote electronically, through remote e-

9:00 A.M. (IST) and will end on Friday, 29th September, 2023 at 5:00 P.M. (IST). mode, physical mode whose email IDs are already registered with the Company/RTA/DP and for those

CIN L51909DL2014PLC270810 Regd.Off. F-14, First Floor, Cross River Mall, CBD Ground, Shahdara New Delhi-110032

September 2023 to 30th September, 2023 (both days inclusive). The Company pleased to provide its members, the facility to cast their vote by electronic means (e-Voting) on all the resolution set forth in the Notice of the 9th AGM. The details

b) The voting period begins on 27th September 2023 from 09:00 a.m. and ends on 29th

helpdesk.evoting@cdslindia.com. For any difficulties, kindly contact the secretarial For Mishka Exim Limited Sd/-

New Delhi

at the AGM. The voting rights of Members shall be in proportion to their shares of the paid up equity share capital of the Company as on the cutoff date i.e. Wednesday, September 20, 2023.

inclusive) for the purpose of AGM. The procedure for e-Voting is available in the notes of Notice of the 93" AGM as well as in the email sent to the Members. Queries/grievances.

For THE MOTOR & GENERAL FINANCE LIMITED

CIN NO: L74899DL1984PLC019218 Phone: 011-41520070, Fax No.: 41503479

Website: www.indialease.com, E-mail: info@indialease.com

NOTICE is hereby given that the 38" Annual General Meeting

Company/RTA/DP.

listed i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and also on the website of the Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") at

since the AGM is being held by VC/OAVM.

VOTING THROUGH ELECTRONIC MODE:

Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the

financialexp.epapr.in

Regd. Off:-

Place: -Delhi

(Sanjeev Bawa) Date: -12-08-2023

Date: September 05, 2023

Place: New Delhi

Date: 05.09.2023

Place: Delhi

In accordance with the various circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) latest being 28th December, 2022 and circulars

The aforesaid documents are available on the website of the Company i.e. www.mgfltd.com under the "Annual Reports" section

Members can attend and participate in the AGM through VC/OAVM facility only. The instructions for joining the AGM are provided in the Notice of

The remote e-voting will commence on Sunday, September 24, 2023 at 09.00 a.m. and will end on Tuesday, September 26, 2023 at 05.00 p.m.

e-voting and are present in the AGM through VC/OAVM shall be eligible

Agent (RTA) by sending an email at rta@alankit.com. **BOOK CLOSURE**

INDIA LEASE DEVELOPMENT LIMITED

Annual General Meeting.

 The remote e-voting will commence on Sunday, September 24, 2023 at 09.00 a.m. and will end on Tuesday, September 26, 2023 at 05.00 p.m. Remote e-voting shall not be allowed beyond 05.00 p.m. on September 26, 2023 and once vote on a resolution has been cast by

Members whose names appear in the Register of Members or in the Transfer Agent (RTA) by sending an email at rta@alankit.com.

The procedure for e-Voting is available in the notes of Notice of the

Compliance Officer & CFO

MEENAKSHI STEEL INDUSTRIES LIMITED CIN - L52110DL1985PLC020240 Regd Office: J-189, Basement, J Block, Saket, New Delhi 110 017 Website: www.meenakshisteel.in Email Id: meenakshisteelindustries@gmail.com NOTICE

NOTICE is hereby given that the 38th Annual General Meeting of the Members of the Company will be held at the Registered Office of the Company at J-189, Basement, J Block, Saket, New Delhi 110 017 on Saturday, 30th September, 2023 at 3.00 pm The Annual Report for the financial year 2022-23 including the Notice convening this Annual General Meeting has been sent to the members at their registered address by post / courier and electronically

to those members who have registered their email Id with the Company. The Book Closure date is Sunday, 24th September, 2023 to Saturday, 30th September, 2023 (both days inclusive). The copy of the 38th Annual Return is available on Company's website www.meenakshisteel.in The Company is providing to its members facility to exercise their right to vote on resolution proposed to be passed at this Annual General Meeting by Electronic Mean (e-voting). The Members may cast their vote using an electronic voting system from the place other than Venue of the Meeting (Remote The Remote e-voting facility shall commence on Wednesday, 27th, September, 2023 from 9.00 am

and end on Saturday, 29th September, 2023 at 5.00 pm. The cut-off date for Remote E-voting shall be 23rd September, 2023. The remote e-voting shall not be allowed beyond the aforesaid date and A person whose name appear on Register of Members / Beneficial Owners as on 5th September, 2023 only shall be allowed to avail the facility of remote e-voting / Voting at the meeting.

By order of the Board of Directors For MEENAKSHI STEEL INDUSTRIES LIMITED

Sudha Jajodia Director (DIN - 00376571)

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

घारा 82 Cr. P. C. देखिए

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त राहुल उर्फ मोटा पुत्र श्री बंशीघर यादव, निवासी G-7/62, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर.16, रोहिणी, दिल्ली। ने FIR No. 16/2020 U/s 411/482/34 IPC & 25/35/54/59 Arms Act., के अंतर्गत थानाः KNK मार्ग, दिल्ली के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किए गए गिरफ्तारी वारंट को यह लिख कर लौटा दिया गया है कि उक्त राहुल उर्फ मोटा मिल नही रहा है और मुझे समाधानप्रद रूप में दर्शित कर दिया गया है कि उक्त राहुल उर्फ मोटा फरार हो गया है (या उक्त वारण्ट की तामील से बचने के लिए अपने आपको छिपा रहा है)

इसलिए इसके द्वारा उदघोषणा की जाती है कि FIR No. 16/2020 U/s 411/482/34 IPC & 25/35/54/59 Arms Act., थानाः KNK मार्ग, दिल्ली के उक्त अभियुक्त राहुल उर्फ मोटा से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक 08.11.2023 को या इससे पहले हाजिर हो। आदेशानुसार

DP/9904/RD/2023

Place: Mumbai

Date: September 6, 2023

श्री हिमांशु सहलोथ, MM-03, कमरा नंबर 213, रोहिणी कोर्ट, दिल्ली



कोठारी फर्मेन्टेशन एंड बायोकेम लिमिटेड CIN: L72411DL1990PLC042502

पंजी. कार्यालयः 16, कम्युनिटी सेन्टर, प्रथम तल, साकेत, नई दिल्ली-110 017 | **टेली**.: 011-26850004. ईमेलः info@kothariyeast.in, वेबसाईटः www.kothariyeast.in

एतदृद्वारा सुचित किया जाता है कि कम्पनी के सदस्यों की 33वीं वार्षिक आमसभा (एजीएम) गुरुवार, 28 सितम्बर, 2023 को 11.30 बजे पूर्वा. में विडियो कान्फ्रेंसिंग (''वीसी'')/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (''ओएवीएम'') द्वारा आयोजित की जाएगी जिसमें एजीएम की सूचना में वर्णित व्यवसायों को निष्पादित किया जायेगा। यह सूचना कम्पनी की वेबसाईट www.kothariyeast.in तथा एनएसडीएल की वेबसाईट पर उपलब्ध है। सभी सदस्यों को सचित किया जाता है किः

1. एजीएम की सूचना में वर्णित साधारण तथा विशेष व्यवसायों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान द्वारा निष्पादित किया जायेगा।

2. एजीएम सूचना के इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण की पूर्णता की तिथिः 4 सितम्बर, 2023

3. ई-वोटिंग शुरू होने की तिथि एवं समय: 25 सितम्बर, 2023 (सोमवार) को 9.00 बजे पूर्वा. में शुरू होगी तथा 27 सितम्बर, 2023 (बुधवार) को 5.00 बजे अप. में बंद होगी। 4. कट-ऑफ तिथिः 21 सितम्बर, 2023

5. यदि कोई व्यक्ति सचना के प्रेषण के बाद कम्पनी का शेयर अर्जित करते हैं तथा कम्पनी का सदस्य

बनते हैं तो वे evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी तथा पास्वर्ड प्राप्त कर सकते हैं। यूजर आईडी एवं पास्वर्ड प्राप्त करने की विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सूचना में भी दी गई है। . सदस्यगण ध्यान रखें किः क) 27 सितम्बर, 2023 के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी; ख) एजीएम में इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया से मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। ग) जिन सदस्यों ने एजीएम से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान कर दिये हों वे भी एजीएम में शामिल हो सकते हैं किन्तु पुनः मतदान के लिये अधिकृत नहीं होंगे तथा घ) केवल ऐसे सदस्य जिनके नाम कट-ऑफ तिथि को

रिमोट ई-वोटिंग के साथ-साथ आमसभा में मतदान की सुविधा प्राप्त करने के लिये अधिकृत होंगे। किसी भी प्रकार की पुछताछ के लिये सदस्य टोल फ्री नं. 022-48867000 तथा 022-24997000 पर सम्पर्क करें अथवा info@kothariyeast.in पर कम्पनी को लिखें अथवा सुश्री पल्लवी म्हात्रे, वरिष्ठ प्रबंधक, नेशनल सिक्यरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ट्रेड वर्ल्ड, 'ए' विंग, 4था तल, कमला मिल्स कम्पाउण्ड, सेनापति बापत मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई-400013 से विनिर्दिष्ट ईमेल pallavid@nsdl.co.in से सम्पर्क कर सकते हैं।

सदस्यों के रजिस्टर अथवा डिपॉजिटरीज द्वारा प्रबंधित लाभ भोगी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज हैं, वे

कृत्ते, कोठारी फर्मेन्टेशन एंड बायोकेम लि.

स्थान: नई दिल्ली तिथि: 5.9.2023

सिल्की गुप्ता कम्पनी सचिव

मिश्का एक्जिम लिमिटेड CIN: L51909DL2014PLC270810

पंजी. कार्या.: एफ-14, प्रथम तल, क्रॉस रिवर मॉल, सीबीडी ग्राउण्ड, शाहदरा, नई दिल्ली-110032 ईमेलः mishkaexim@gmail.com

9वी वार्षिक आम सभा, ई-वोटिंग तथा पुस्तक बंद होने की तिथि की सूचना एतदुद्वारा सुचित किया जाता है कि कम्पनी की 9वीं वार्षिक आमसभा (एजीएम) सुचना में वर्णित व्यवसाये को निष्पादित करने के लिये ले चेफ. 3रा तल, क्रॉस रिवर मॉल, सीबीडी ग्राउण्ड, शाहदरा, दिल्ली-110032 में शनिवार, 30 सितम्बर, 2023 को 11.00 बजे पूर्वा. में आयोजित की जाएगी।

एजीएम की सुचना, वार्षिक रिपोर्ट, उपस्थिति पर्ची प्रॉक्सी प्रपत्र इलेक्ट्रॉनिक पद्धति में ऐसे सभी सदस्यों को भेज दी गई है जिनके ईमेल आईडी कम्पनी अथवा डिपॉजिटरी पार्टिसिपॅन्ट्स के पास पंजीकृत हैं बशर्ते सदस्यों को भेजी गई है जिन्होने अपने ईमेल आईडी कम्पनी या डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्टस के पास दर्ज नहीं करायें हैं। वार्षिक रिपोर्ट की प्रति कम्पनी वेबसाईट अर्थात् mishkaexim.com पर स्थापित की जा रही है। सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के क्लॉज 42 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के अनुपालन में एतदुद्वारा सुचित किया जाता है कि सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अंतरण पुस्तकें 24 सितम्बर, 2023 से 30 सितम्बर, 2023 (दोनों दिवस सहित) तक बंद

यह कम्पनी 9वीं एजीएम की सचना में निर्दिष्ट सभी प्रस्तावों पर इलेक्टॉनिक माध्यमों (ई-वोटिंग) द्वारा मतदान करने की सुविधा अपने सदस्यों को उपलब्ध करा रही हैं। उक्त नियमों तथा अधिनियम के प्रावधाने

के अनपालन में विवरण यहाँ नीचे दिये गये है:

क) सूचना के प्रेषण की पूर्णता की तिथि मंगलवार, 5 सितम्बर, 2023 है।

ख) मतदान 27 सितम्बर, 2023 को 9.00 बजे पर्वा. में शरू होगी तथा 29 सितम्बर, 2023 को 5.00 बजे अप. में बंद होगी। इस अवधि के दौरान कट-ऑफ तिथि (अभिलिखित तिथि) अर्थात 22 सितम्बर 2023 को भौतिक पद्धति या डिमैटेरियलाइज्ड पद्धति में शेयर धारित करने वाले कम्पनी के शेयरधारक इलेक्ट्रानिक रूप से अपना मतदान कर सकते हैं।

यदि ई-वोटिंग से संबंधित किसी सदस्य का कोई प्रश्न अथवा समस्या हो तो कृपया helpdesk.evoting@cdslindia.com पर सम्पर्क करें। किसी भी प्रकार की कठिनाई के लिये पत्र द्वार अथवा **ईमेल:mishkaexim@gmail.com** द्वारा सचिवालयी विभाग में कृपया सम्पर्क करें।

मिश्का एक्जिम लिमिटेड के लिये

रजनीश गुप्त

HINDUSTHAN URBAN INFRASTRUCTURE LIMITED (An enterprise of THE HINDUSTHAN GROUP) पंजीकत कार्यालयः कंचनजंगा (7वां तल)

18 बाराखंभा रोड, नई दिल्ली–110001 ई-मेल : investors@hindustan.co.in, वेबसाइट : www.hindusthanurban.com

सीआईएन : एल31300डीएल1959पीएलसी003141, दूरभाष सं. +091-11-23310001-05 वीडियो कान्फैंस (वीसी)/ अन्य ऑडियो विजुएल माध्यमों (ओएवीएम)

द्वारा आयोजित की जाने वाली 63वीं वार्षिक आम सभा की सुचना एतदद्वारा सचना दी जाती है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों, सेबी (सचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के साथ पठित कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी सर्क्यलर नं. 10/2022 तिथि 28 दिसम्बर, 2022 तथा लागु होने वाले सभी सर्क्युलर्स (''एमसीए सर्क्युलर्स'') तथा भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड ('सेबी') द्वारा जारी सेबी सर्क्यूलर सेबी/एचओ/सीएफडी/पीओडी-2)पी/सीआईआर/2023/4 तिथि 5 जनवरी, 2023 तथा भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी अन्य सभी लागू होने वाले कानूनों तथा सर्क्युलर के अनुपालन में हिन्दस्थान अर्बन इन्फ्रास्टक्चर लिमिटेड के सदस्यों की 63वीं वार्षिक आम सभा (एजीएम) शनिवार, 30 सितम्बर, 2023

को 11.00 बजे पूर्वा. में वीडियो कान्फ्रेंस (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) द्वारा आयोजित की जाएगी जिसमें सभा की सुचना में वर्णित व्यवसायों को निष्पादित किया जायेगा। उपरोक्त सर्क्युलर्स के अनुपालन में वित्त वर्ष 2022-23 के वार्षिक रिपोर्ट के साथ वार्षिक आम सभा की सुचना इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से उन सदस्यों को भेज दी गई है जिनके ईमेल पते कम्पनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट्स के पास पंजीकृत हैं। सूचना का ईमैलिंग 5 सितम्बर, 2023 को पूरा कर लिया गया है। उक्त दस्तावेज कम्पनी की वेबसाईट www.hindusthanurban.com, स्टॉक एक्सचैंज अर्थात् बीएसई लिमिटेड की वेबसाईट www.bseindia.com तथा नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड

(''एनएसडीएल'') की वेबसाईट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है। कम्पनी ने सदस्यों के लिये एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट सभी प्रस्तावों पर रिमोट ई-वोटिंग सुविधा (एजीएम से पूर्व) तथा ई-वोटिंग सुविधा (एजीएम) के दौरान) के माध्यम से अपने सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई है। जिन सदस्यों ने अपने ईमेल आईडी पंजीकत नहीं कराये हैं. से आग्रह है कि डिमैट पद्धत्ति में धारित शेयरों के लिये संबंधित डीपी तथा भौतिक पद्धत्ति में धारित शेयरों के मामले में स्काईलाइन फाइनांसियल सर्विसेस प्रा.लि., कम्पनी के आरटीए का पास compliances@skylinerta.com पर अथवा info@skylinerta.com पर उसे पंजीकृत/अद्यतन करा लें। रिमोट ई-वोटिंग तथा एजीएम में वोटिंग द्वारा मतदान के लिये सदस्यों की पात्रता सुनिश्चित करने हेतु कट-ऑफ तिथि शनिवार, 23 सितम्बर, 2023 है।

रिमोट ई-वोटिंग अवधि बधवार, 27 सितम्बर, 2023 को 9.00 बजे पर्वा. (आईएसटी) में शरू होगी तथा शक्रवार, 29 सितम्बर, 2023 को 5.00 बजे अप. (आईएसटी) में बंद होगी। डिमैटेरियलायज्ड पद्धित या भौतिक पद्धित में शेयर धारित करने वाले ऐसे सदस्यों जिन्होंने ईमेल आईडी कम्पनी/आरटीए के पास दर्ज कराये हैं तथा ऐसे सदस्यों जिन्होंने अपने ईमेल आईडी दर्ज नहीं कराये हैं. के लिये भागीदारी तथा मतदान की प्रक्रिया के लिये निर्देश भी अन्य संबंधित विवरणों सहित एजीएम के आमंत्रण की सचना में दी गई है। हिन्दुस्थान अर्बन इन्फ्रास्टक्चर लिमिटेड के लिए

एम.एल. बिरमीवाला

अध्यक्ष-वित्त एवं सचिव



Regd. office: Office No 4 FF, CSC, Pocket E Market, Mayur Vihar Phase 2 Delhi 110091

E mail: oakeymohan@gmail.com Websie: www.oakeymohan.in Phone: 0120 -2657298

NOTICE OF THE 61st ANNUAL GENERAL MEETING, **E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE**

NOTICE is hereby given that the 61st Annual General Meeting (AGM) of the members of John Oakey and Mohan Limited (the 'Company') will be held on Saturday, September 30, 2023 at 3:00 p.m. IST through Video Conferencing(VC) / Other Audio-Visual Means (OAVM) to transact the businesses as set forth in the Notice calling 61st AGM, in due compliance of the General Circular numbers 4/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 20/2020 dated May 5, 2020, 02/2021 dated January 13, 2021, 21/2021 dated December 14, 2021, 2/2022 dated May 5, 2022, and 10/2022 dated December 28, 2022 (collectively referred to as 'MCA Circulars') and the Securities and Exchange Board of India ('SEBI') circular nos. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIRP/P/2022/62 dated May 13, 2022 ('SEBI Circulars') and SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 5, 2023. In compliance with the Circulars, electronic copies of the Notice of the AGM and Annual Report 2022-23 have been sent to all the members whose email IDs are registered with the Company/Depository Participant(s). These documents are also available on the website of the Company at, https://www.oakeymohan.in/ investors.html and on the website of stock exchange at https://www.msei.in/. The dispatch of Notice of the AGM through emails has been completed on September06, 2023.

As per Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administrative) Rules, 2014, as amended from time to time, Secretarial Standard-2 and Regulations 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 ('SEBI Listing Regulations') the Company is pleased to provide its Members with the facility to cast their votes electronically on all resolutions set forth in the Notice calling 61st Annual General Meeting.

Members holding shares either in physical form or dematerialized form, as on the cut-off date (September 23, 2023), may cast their votes electronically on the business as set forth in the Notice of the AGM through the electronic voting system of CDSL ('remote e-voting'). The remote e-voting shall commence on Wednesday, September 27, 2023 (10:00 a.m. IST) and end on Friday the September 29, 2023 (5:00 p.m. IST). The remote e-voting module shall be disabled by CDSL beyond 5:00 p.m. IST on September 29, 2023. The facility for voting will also be made available during the AGM, and those members present in the AGM through VC facility, who have not cast their vote on the resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through the e-voting system during the AGM. The Members may kindly refer the Notice calling 61st AGM for detailed information. Members who have not registered their email addresses are requested to register their email addresses with respective depository participant(s) and members holding shares in physical mode are requested to update their email addresses with Company's RTA by writing them at Investor@beetalfinancial.com to receive copies of the Annual Report 2022-23 along with the Notice of the 61st AGM, instructions for remote e-voting and instructions for participation in the AGM through VC. The members who require technical assistance to access and participate in the meeting through VC may contact the helpline number given in the Notice calling 61st AGM.

NOTICE is also hereby given that pursuant to Section 91 of the Act read with Rules made thereunder and Regulation 42 of SEBI (LODR) 2015, the Register of Members and Share Transfer books will remain closed from Sunday, 24th September 2023 to Saturday, 30th September 2023 (both days inclusive).

Regd. Off:-Office No 4, FF, CSC Pocket E Market, Mayur Vihar Phase 2 Delhi 110091

(Sanjeev Bawa) **Managing Director**

BY Order of the Board of Directors

For John Oakey and Mohan Ltd



Date: -12-08-2023

डयरोपैक लिमिटेड

सीआईएन : L74899DL1986PLC025835 (फ्लैक्सिबल लैमिनेटस पाउच तथा होलोग्राफिक उत्पादों के निर्माता) प्रशासनिक कार्यालय : बी-4/160, सफदरजंग एन्कलेव, नई दिल्ली-110029 (भारत) दूरभाष : 011-26181611, 41359339

ई-मेल : info@duropackindia.com, वेबसाइट : www.duropackindia.com

एतद्वारा सुचना दी जाती है कि **ड्यूरोपैक लिमिटेड** (''**कंपनी**'') के सदस्यों की 35वीं वार्षिक आम बैठक ''एजीएम'') कंपनी अधिनियम, 2013 के सभी लागु प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों ''अधिनियम'') और परिपत्र सं. 14 दिनांक 8 अप्रैल, 2020 के साथ पठित परिपत्र सं. 20 दिनांक 5 मई, 2020 और परिपत्र सं. 17 दिनांक 13 अप्रैल. 2020 तत्पश्चात सामान्य परिपत्र सं. 02/2021 दिनांक 13 जनवरी. 2021 के साथ पठित सामान्य परिपत्र सं. 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020, सामान्य परिपत्र सं. 19/2021 दिनांक 08 दिसम्बर, 2021, सामान्य परिपत्र सं. 02/2022 दिनांक 05 मई. 2022 तथा सामान्य परिपत्र सं. 10/2022 दिनांक 28 दिसम्बर, 2022 (सिके पश्चात सामृहिक रूप से 'एमसीए परिपत्र' संदर्भित) के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (''सेबी'') (सचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 तथा सेबी परिपत्र सं. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 तथा SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 दिनांक 12 मई, 2020 और 15 जनवरी, 2021 तथा कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय (''एमसीए'') और सेबी द्वारा जारी अन्य प्रयोज्य परिपत्रों (सामृहिक रूप से ''प्रासंगिक परिपत्र'' के रूप में संदर्भित) के अनुपालन में एजीएम आयोजित करने की सूचना दिनांक 1 सितम्बर, 2023 में निर्धारित व्यवसायों के लेन-देन के लिए शनिवार, 30 सितंबर, 2023 को सबह 10:00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (''वीसी'') / अन्य ऑडियो-विजअल साधनों (''ओएवीएम'') के माध्यम से आयोजित की जाएगी क्योंकि उपरोक्त परिपत्रों तथा भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड ('सेबी') के परिपत्र दिनांक 13 मई, 2022, 15 जनवरी, 2021 तथा 12 मई, 2020 के साथ पठित परिपत्र सं. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 द्वारा किसी कॉमन स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (''वीसी'') / अन्य ऑडियो-विजुअल साधनों (''ओएवीएम'') के माध्यम से वार्षिक आम बैठक आयोजित करने की अनुमित प्रदान की गयी है। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम के प्रयोजन के लिए गिना जाएगा।

संबंधित परिपत्रों के अनुपालन में, एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वित्तीय विवरण, बोर्ड की रिपोर्ट. लेखा परीक्षक की रिपोर्ट और संलग्न किये जाने वाले अन्य दस्तावेज, कंपनी के उन सभी सदस्यों के पास भेज दिये गये हैं जिनके ईमेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास पंजीकृत हैं। उपरोक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.duropackindia.com पर, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट यानी बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com पर और एनएसडीएल (रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने वाली एजेंसी) की वेबसाइट अर्थात www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध होंगे।

चंकि यह एजीएम संबंधित परिपत्रों के अनुसार वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है, इसलिए इस एजीएम के लिए सदस्यों को उपस्थित होने और वोट डालने के लिए प्रॉक्सी नियक्त करने की सुविधा उपलब्ध नहीं

 $\mathbf{I}_{\mathbf{5}}$ -मेल पते पंजीकृत \mathbf{x} अपडेट कराने की रीति

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य, जिन्होंने कंपनी के साथ अपने ईमेल पते को पंजीकृत/अपडेट नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, पैन (पैन कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन कॉपी), आधार (आधार कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन कॉपी) के विवरण के साथ कंपनी को cs@duropackindia.com पर या कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर अन्तरण एजेंट (''आरटीए'') मैसर्स अभिप्रा कैपिटल लिमिटेड को rta@abhipra.com पर लिखकर इसे पंजीकृत/अपडेट करें।

यदि शेयर डीमैट मोड में हैं. तो कपया डीपीआईडी-सीएलआईडी (16 अंकों का डीपीआईडी + सीएलआईडी या 16 अंकों का लाभार्थी आईडी), शेयरधारक का नाम, क्लाइंट मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन कॉपी), आधार (आधार कार्ड की सेल्फ अटेस्टेड स्कैन कॉपी) cs@duropackindia.com पर उपलब्ध करायें।

समय-समय पर संशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 और सुचबद्धता विनियम के विनियम 44 तथा प्रासंगिक परिपत्रों के के अनुसार, सदस्य को एजीएम की सुचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटर्स लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा प्रावधानित इलेक्ट्रॉनिक रूप से ('रिमोट ई-वोटिंग') और एजीएम के दिन ई-वोटिंग द्वारा मतदान की सविधा प्रदान की गयी है और ऐसे ई-वोटिंग के माध्यम से व्यवसाय का लेन-देन किया जा सकता है।

सभी सदस्यों को सुचित किया जाता है किः कंपनी ने किसी भी व्यक्ति की ई-वोटिंग हेतु सदस्यों की पात्रता सुनिश्चित करने के लिए 23 सितंबर, 2023 को ''कट ऑफ'' तिथि के रूप में निर्धारित किया है, कोई व्यक्ति जो शेयर अर्जित करता है और सूचना भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तक शेयर धारण करता है वह फोलियो नंबर/डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी का उल्लेख करते हुए evoting@nsdl.co.in पर निवेदन भेजकर यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। यदि सदस्य पहले से ही ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ

पंजीकृत हैं तो मतदान के लिए मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग किया जा सकता है। रिमोट ई-वोटिंग बुधवार, 27 सितंबर 2023 को सुबह 09:00 बजे (भा.मा.स.) से शुरू होगी और शुक्रवार, 29 सितंबर, 2023 को शाम 05:00 बजे (भा.मा.स.) (दोनों दिन शामिल) पर समाप्त होगी और इस अवधि

के दौरान सदस्य इलेक्टॉनिक रूप से अपना मतदान कर सकते हैं। इसके बाद, एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉडयल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। सदस्यों के वोटिंग अधिकार शनिवार, 23 सितंबर, 2023 ('कट ऑफ डेट') को कंपनी की चुकता इक्विटी पुंजी में उनके द्वारा रखे गए इक्विटी शेयरों के अनुपात में होंगे। कोई भी व्यक्ति, जो कट-ऑफ तिथि को कंपनी

का सदस्य है, एजीएम की सुचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर रिमोट ई-वोटिंग सिस्टम या एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम का उपयोग करते हुए मतदान करने का पात्र है। जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा पहले से अपना वोट नहीं डाला है, वे एजीएम में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान किया है, वे एजीएम

में शामिल हो सकते हैं, लेकिन एजीएम में दोबारा मतदान करने के हकदार नहीं होंगे। कंपनी ने ई-वोटिंग और रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच करने के लिए श्री दीपक गप्ता (सीपी नंबर 4629), डीआर एसोसिएटस, कंपनी सचिव के साझेदार को संवीक्षक के रूप में नियक्त किया है। कोई भी व्यक्ति, जो कंपनी के शेयरों का अधिग्रहण करता है और सचना के प्रेषण के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तिथि यानी शनिवार, 23 सितंबर, 2023 तक शेयर धारण करता है, वह एजीएम की सुचना

में प्रावधानित तरीके से लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। 5. वीसी/ओवीएएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने. रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग से संबंधित विस्तृत निदेशों के लिए, सदस्य कृपया एजीएम की सचना देखें। डीमैटीरियलाइज्ड मोड, फिजिकल मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों और उन सदस्यों के लिए जिन्होंने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है, द्वारा रिमोट ई–वोटिंग और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के लिए की रीति कंपनी की वेबसाइट www.duropackindia.com, स्टॉक एक्सचेंज, यानी बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर और एनएसडीएल की वेबसाइट (रिमोट ई-वोटिंग सविधा प्रदान करने वाली एजेंसी) यानी www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध एजीएम की सचना में प्रदान किया गयी है। । ई-वोटिंग प्रक्रिया से संबंधित किसी भी प्रश्न या शिकायत के मामले में, सदस्य www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध Frequently Asked Questions (FAQ) for members का सन्दर्भ ले सकते हैं या टोल फ्री नंबरः 022-4886 7000 तथा 022-2499 7000

पर कॉल कर सकते हैं या evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजें या सुश्री पल्लवी सिंह, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड. टेड वर्ल्ड. 'ए' विंग. चौथी मंजिल. कमला मिल्स कंपाउंड. सेनापति बापट मार्ग. लोअर परेल. मुंबई - 400 013, निर्दिष्ट ईमेल आईडी - evoting@nsdl.co.in या pallavid@nsdl.co.in पर या टेलीफोन नंबर पर:- +91 22 24994545, +91 22 24994890 पर संपर्क करें, जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान से जड़ी शिकायतों का समाधान भी करेंगे।

निदेशक मण्डल के आदेशानसार कृते इ्यूरोपैक लिमिटेड

त्यान : नई दिस्ती

Ret : 03-09-2028

विवेक जैन प्रबन्ध निदेशक स्थान : नई दिल्ली तिथि : 5 सितम्बर, 2023 डीआईएन : 01753065

प्रपत्र सं. आईएनसी-25ए

सार्वजनिक कम्पनी का प्राईवेट कम्पनी में रूपांतरण के लिये समाचार पत्र में प्रकाशन के लिये विज्ञापन

क्षेत्रीय निदेशक, कॉपोरेंट कार्य मंत्रालय, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष कम्पनी अधिनियम, 2013, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 41 के मामले में

मै. केम कलर (इंडिया) लिमिटेड (CIN: U24119DL1991PLC221352) जिसका पंजीकृत कार्यालय 217, गली नं. 2, गुरुराम दास नगर, लक्ष्मी नगर, पूर्वी दिल्ली, दिल्ली-110092 में है, के मामले में

एतदुद्वारा आम जनता को सुचित किया जाता है कि यह कम्पनी उपरोक्त नियमावली के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 के अंतर्गत केंद्र सरकार के पास एक आवेदन करने के लिये इच्छुक है तथा ऐसे रूपांतरण को प्रभावी करने के लिये कम्पनी को सक्षम बनाने के लिए 31 अगस्त, 2023 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनसार कंपनी को एक प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी में रूपांतरित करने के लिए इच्छुक है। कंपनी की स्थिति में इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे उसके नीचे वर्णित पते पर पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, दिल्ली,बी-2 विंग, पं. दीन दयाल अन्त्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली- 110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें। 217, गली नं. 2, गुरुराम दास नगर, लक्ष्मी नगर, पूर्वी दिल्ली, दिल्ली-110092

आवेदक के लिये तथा उसकी ओर से तिथि: 06.09.2023

स्थानः दिल्ली रमेश कुमार अगरवाल (निदेशक DIN: 00293312 पंजीकृत कार्यालय का सम्पूर्ण पता: 217, गली नं.2,

गुरुराम दास नगर, लक्ष्मी नगर, पूर्वी दिल्ली, दिल्ली-110092

आयुष्मान इंफ्राटेक लिमिटेड (पूर्व में शान्तनु इन्वेस्टमेन्ट्स (इंडिया) लिमिटेड विदित)

सीआईएन: L45100DL1973PLC006795 पंजीकृत कार्यालयः डीएससी-319, डीएलएफ साउथ कोर्ट, साकेत न्यू दिल्ली 110017 कॉर्पोरेट कार्यालयः डीएससी-326, डीएलएफ साउथ कोर्ट, साकेत न्यू दिल्ली 110017 ईमेल आईडी: cs@greatvalueindia.com; वेबसाइट: www.ayushman.net

(फोन नंबर:-011-41349612-14) आयुष्मान इंफ्राटेक लिमिटेड की 50वीं वार्षिक आम बैठक की सुचना तद्द्वारा सूचना दी जाती है कि आयुष्मान इंफ्राटेक लिमिटेड के शेयरधारकों की 50वीं वार्षिक आम बैठक एजीएम के नोटिस में निर्धारित व्यापार के लेन-देन के लिए शुक्रवार, 29 सितंबर, 2023 को

दोपहर 12:00 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय डीएससी-319 डीएलएफ साउथ कोर्ट, साकेत, नई दिल्ली-110017, में आयोजित की जाएगी। एजीएम नोटिस, प्रॉक्सी फॉर्म और उपस्थिति पर्ची सदस्यों को अनुमत माध्यम से भेज दी गई है। ये दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट यानी www.ayushman.net और मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ

इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट यानी www.msei.in पर भी उपलब्ध हैं। सदस्य यह भी नोट करें कि उपर्युक्त परिपत्रों के अनुसरण में और सरकार की गो-ग्रीन पहल को आगे बढ़ाते हुए, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 50वीं एजीएम और वार्षिक रिपोर्ट की सूचना केवल उन सदस्यों के पास जिनके ईमेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास पंजीकृत हैं, इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भेजी जाएगी।

कट–ऑफ तिथि यानी 22 सितंबर, 2023 को भौतिक रूप में या डीमैटरियलाइज्ड रूप में शेयर रखने वाले सदस्य एजीएम की सुचना में बताए गए अनुसार व्यवसाय पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है किः . शेयरधारकों को रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तदनुसार, शेयरधारक बैठक में मतदान

करने के बजाय इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान कर सकते हैं। कोई व्यक्ति, जिसका नाम मतदान की कट-ऑफ तिथि 22 सितंबर, 2023 को सदस्यों/लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, रिमोट ई-वोटिंग या बैठक में बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान की

सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा। सदस्यों के रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर शनिवार, 23 सितंबर, 2023 से शुक्रवार, 29 सितंबर, 2023 [दोनों दिन शामिल] तक बंद रहेंगे। रिमोट ई-वोटिंग की अवधि मंगलवार, 26 सितंबर, 2023 (09:00 पूर्वाह्न भा.मा.स.) से शुरू होगी

और गुरुवार, 28 सितंबर, 2023 (05:00 अपराह्न भा.मा.स.) को समाप्त होगी। ई-वोटिंग सविधा उक्त ई-वोटिंग अवधि के दौरान www.evotingindia.com लिंक पर उपलब्ध होगी। इसके बाद मतदान के लिए सीडीएसएल द्वारा ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। कोई भी व्यक्ति, जो कंपनी के शेयरों का अधिग्रहण करता है और नोटिस के प्रेषण के बाद कंपनी

का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तिथि तक शेयर धारण करता है, वह helpdesk.evoting@cdslindia.com तथा cs@greatvalueindia.com पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। पोस्टल बैलट पेपर के माध्यम से मतदान की सविधा एजीएम में उपलब्ध कराई जाएगी। बैठक

में भाग लेने वाले सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं दिया है, वे बैठक में अपने अधिकार का प्रयोग करने में सक्षम होंगे और बैठक से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा वोट देने वाले सदस्य भी बैठक में शामिल हो सकते हैं, लेकिन दुबारा वोट डालने के पात्र नहीं होंगे। यदि ई-वोटिंग के संबंध में आपका कोई प्रश्न या समस्या है. तो आप निम्नलिखित व्यक्ति से संपर्क

नाम : श्री राकेश दलवी (प्रबंधक)

पार्टिसिपैन्ट के पास पंजीकृत करा लें।

निवासीः ए विंग, 25वां तल, मैराथन फ्यूचरेक्स, मटेरियल मिल कंपाउंड्स, एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल (ई), मुंबई -400013।

ईमेल आईडी: helpdesk.evoting@cdslindia.com फोन नंबरः 1800225533

सदस्य ध्यान दें कि एजीएम के नोटिस में रिमोट ई-वोटिंग/ एजीएम के दौरान पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया का भी उल्लेख किया गया है। एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट उचित समय पर कंपनी की वेबसाइट यानी www.ayushman.net, स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, यानी मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी www.msei.in और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध होगी। उपरोक्त सुचना कंपनी के सभी सदस्यों की जानकारी और लाभ के लिए जारी की जा रही है और

समय-समय पर जारी एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्रों के अनुपालन में है। जिन सदस्यों ने अपने ईमेल पते तथा मोबाईल नम्बर पंजीकृत नहीं कराये हैं, से अनुरोध है कि सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार फार्म आईएसआर 1 फार्म को पुरा कर स्काईलाइन (आरटीए) के पास उसे

पंजीकृत करा लें। ये फार्म लिंक https://www.ayushman.net.in/ images/phnotice/Form-ISR-1.pdf पर क्लिक कर प्राप्त की जा सकती है। कपया समय पर संदेश प्राप्त करने के लिये अपने अत्यधिक अपडैटेड ईमेल आईडी कम्पनी/डिपॉजिटरी

> आयुष्मान इन्फ्राटेक लिमिटेड के लिये विनय आनंद

दिनांक: 5 सितंबर, 2023 स्थानः नई दिल्ली कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

डा. फ्रेश असेट्स लिमिटेड

सीआर्थएन : एजा१४७०औएले१७००पीएलसी०४२७०२ **पंजी. कार्याक्षय :** बी-1 / ई-24, मोहन को-ऑपरेटिव, इंडस्ट्रियल एरिया, मथुरा रोड, नई दिल्ली-110044 ਟੇਂਗੀ. ਜਂ. 91-11-41679238,

क्तिः drfresh@drfreshassets.com; वेबसाईट : www.drfreshassets.com वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुश्रत सामनों (ओएवीएम) के मध्यम से आयोजनार्थ निर्धारित

33वीं बार्षिक साधारण समा, रिमोट ई बोटिंग के बारे में सबना तद्दवारा सुचित किया जाता है कि कम्पनी के सदस्यों की 33वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) शनिवार, 30 सितम्बर, 2023 को अप. 5.00 बजे, वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जायेगी, जिसमें सभा के आयोजन की सूचना में वर्णित व्यवसायों को निष्पादित किया

कार्पोरेट मंत्रालय द्वारा जारी जनरल सर्कलर नंबर 4 / 2023 दिनांकित 5 जनवरी, 2023 के साथ पठित सर्कलर नंबर 02/2022 दिनांकित 5 मई, 2022, सर्कुलर नंबर 21/2021 दिनांकित 14 दिसंबर, 2021, सर्कुलर नंबर 19/2021 दिनांकित 8 दिसंबर, 2021, सर्कूलर नंबर 2/2021 दिनांकित 13 जनवरी, 2021 तथा सर्कूलर नंबर 20 / 2020 दिनांकित 5 मई, 2020 के अनुपालन में और एजीएम का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से किसी एक स्थान पर बैठक में सदस्य की भौतिक उपस्थित के बिना करने के अनुपालन में। सदस्यगण केवल वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकेंगे। वीसी / ओएवीएम सुविधा के माध्यम से भाग ले रहे सदस्यों की गणना कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 103

के तहत गणपर्ति के प्रयोजनार्थ की जाएगी। संबद्ध सकलर के अनपालन में एजीएम की सचना तथा वार्षिक रिपोर्ट 2022–23. जिसमें वित्तीय वर्ष हेत वित्तीय विवरण, निदेशक मंडल की रिपोर्ट, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट और उसके साथ संलग्न किए जाने हेत् अपेक्षित दस्तावेजों सहित ऐसे सदस्यों को केवल ई-मेल द्वारा भेजी जाएगी जिनका ईमेल पता कम्पनी / डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (पार्टिसिपेंटस) के पास दर्ज हैं। उपरोक्त दस्तावेज कम्पनी की वेबसाइट www.drfreshassets.com पर स्टॉक एक्सचेंजेज, जहां कम्पनी के शेयर सचीबद्ध हैं. की वेबसाइटस नामत : www.msei.in तथा नैशनल

सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड की वेबसाइट नामतः www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध हैं। शनिवार. 23 सितम्बर. 2023 को शेयरों के धारक सदस्य. उन सदस्यों सहित जिनको उनका ई–मेल पता कम्पनी के पास उपलब्ध नहीं होने के कारण वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रति प्राप्त नहीं होती है, एजीएम की सुचना में दिए निम्न अनुदेशों का अनुसरण कर अपने वोट देने के अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं

ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने की विधि क) सदस्यों को एजीएम की सचना में सचीबद्ध व्यवसाय पर उनका वोट इलेक्टॉनिक वोटिंग सिस्टम ("ई—वोटिंग") के माध्यम से डालने का अवसर प्राप्त होगा। ख) भौतिक रूप, अभौतिक रूप में शेयरधारक सदस्यों द्वारा और उन सदस्यों, जिनका ई–मेल पता पंजीकत नहीं है. के लिए रिमोटली वोटिंग ("रिमोट ई—वोटिंग") की विधि का वर्णन एजीएम की सचना में किया गया

ग) ई–वोटिंग हेत् स्विधा एजीएम में भी उपलब्ध कराई जाएगी तथा एजीएम में उपस्थित वे सदस्य, जिनके द्वारा रिमोट ई-वोटिंग द्वारा वोट नहीं डाला गया है, एजीएम में वोट डाल सकेंगे। घ) ई–वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के लिए लॉगइन क्रेडेन्शियल्स सदस्यों को ई–मेल द्वारा उपलब्ध कराए

🕼) इन्हीं लॉगइन क्रेडेन्शियल्स का उपयोग वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने हेतू किया जाएगा। यदि आपका ई–मेल पता कम्पनी / डिपॉजिटरी के पास पंजीबद्ध नहीं है, कृपया एजीएम से जुड़ने / ई—वोटिंग सुविधा का प्रयोग करने के लिए लॉगइन विवरण और वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए निम्नवर्णित अनुदेशों का अनुसरण करें 1) भौतिक धारण : कृपया हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र, जिसमें आपके फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम दिया गया

हो. शेयरप्रमाणपत्र की स्कैन प्रति (फ्रंट और बैक). पैन (पैन कार्ड की स्व–सत्यापित स्कैन प्रति). आधार (आधार कार्ड की स्व–सत्यापित स्कैन प्रति) सहित ई–मेल द्वारा कम्पनी के ई–मेल पता कततिमीं/कततिमींमजेण्बवउ पर अथवा कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेन्ट – एमएएस सर्विसेज लिमिटेड की ई–मेल आईडी रेंऋमतः / लीववण्बवस पर भेजें।

2) अभौतिक धारण : कृपया अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपैंट (डीपी) से सम्पर्क करें और अपने डीमैट खाते में अपना ई–मेल पता अपने डीपी द्वारा बताए अनुसार पंजीकृत करें। 3) कम्पनी कोई लाभांश घोषित नहीं कर रही है।

4) जिन शेयरधारकों के शेयर भौतिक रूप में हैं, उनको अपने शेयर अभौतिक रूप में परिवर्तित कराने होंगे क्योंकि सेबी द्वारा भौतिक रूप में शेयरों का हस्तांतरण निषिद्ध कर दिया गया है।

सदस्यों से अनरोध है कि एजीएम की सचना मे दिए गए नोटस और विशेषकर एजीएम से जड़ने, रिमोट ई—वोटिंग या एजीएम में ई—वोटिंग द्वारा वोट डालने की विधि संबंधी अनुदेश ध्यानपूर्वक पढ़ लें।

क्षे एवं हिते बीबी बा क्रेंब असेट्स किमिटेब Dett /-विजय प्रकाश माहक पूर्ण काविक निदेशक

टिनिटी लीग इंडिया लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय : ए-23, मंदाकिनी एन्कलेव, अलकनन्दा, जीके-II, नई दिल्ली-110019 . कॉर्पोरेट कार्यालयः ट्रिनिटी टॉवर, बी—2, सेक्टर—7, नोएडा, उत्तर प्रदेश—201301

संपर्क-0120-6923900-902

वेबसाइट : www.trinitygroup.ind.in ई—मेल: trinityleague@trinitygroup.ind.in 35वीं वार्षिक आम बैठक(एजीएम) की सूचना

रतद्वारा सूचना दी जाती है कि एजीएम की सूचना में निर्धारित प्रकार्य के लेन–देन हेतु ट्रिनिटी लीग इंडिया लिमिटेड की पैंतीसवीं वार्षिक आम बैठक (35वीं एजीएम) केवल ई—वोटिंग सुविधा के माध्यम से वीडियो कांफ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों ('ओएवीएम') द्वारा शुक्रवार 29 सितंबर 2023 को पूर्वाह्न 11

30 बजे आयोजित की जायेगी। कम्पनी अधिनियम, 2013 तथा कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय द्वारा जारी परिपन्न दिनांक 5 मई, 2020, 8 अप्रैल, 2020 तथा 13 अप्रैल, 2020 एवं सेबी परिपत्र दिनांक 12 मई, 2020,परिपत्र सं. 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021 और कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 5 मई, 2022 के अनुपालन में एजीएम केवल वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जायेगी। इलेक्ट्रॉनिक रूप से एजीएम में शामिल होने के निर्देश

वार्षिक रिपोर्ट 2022–23 सहित एजीएम की सूचना केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन सदस्यों के पास भेजी जा रही है जिनके ई-मेल पते कम्पनी या सीडीएसएल/एनएसडीएल (डिपॉजिटरी) के साथ पंजीकृत हैं और इसे कम्पनी की वेबसाइट www.trinitygroup.ind.in तथा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट अर्थात www.bseindia.com पर उपलब्ध कराया जायेगा।

जिन सदस्यों ने अपने ई–मेल पते पंजीकत नहीं कराये हैं और परिणामस्वरूप उनके पास एजीएम की सचना तथा ई-वोटिंग के निर्देशों सहित वार्षिक रिपोर्ट नहीं भेजी जा सकी है, वे इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक फोलियो के मामले में ई—मेल पता, मोबाइल नम्बर, पैन तथा क्लाइंट मास्टर की स्वप्रमाणित प्रति तथा भौतिक फोलियो के मामले में शेयर प्रमाण-पत्र की प्रति उपलब्ध कराते हुए हुस्ताक्षरित निवेदन की स्कैन्ड प्रति कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर अन्तरण एजेंट, बीटल फाइनेंशियल एण्ड कम्प्यूटर सर्विसेज (प्रा.) लिमिटेड के पास investor@beetalfinancial.com पर भेज दें तािक वे वार्षिक रिपोर्ट, एजीएम की सूचना तथा ई-वोटिंग

5.00 बजे अप. समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान भौतिक प्रारूप या डीमैटीरियलाइज्ड प्रारूप में शेयर धारण करने वाले कम्पनी के शेयरधारक इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मतदान कर सकते हैं। इसके पश्चात वोटिंग हेतु ई—वोटिंग मॉड्यल सीडीएसएल द्वारा निष्क्रिय कर दिया जायेगा अर्थात 28 सितम्बर, 2023 को 5.00 बजे अप. के उपरान्त वोटिंग की अनमति नहीं होगी। ई–वोटिंग की सविधा एजीएम के दौरान उन सदस्यों के लिए भी उपलब्ध कराई जायेगी जो एजीएम में उपस्थित होंगे और जिन्होंने पहले मतदान नहीं किया है। जिन सदस्यों ने रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से एजीएम से पूर्व अपना मतदान कर लिया है वे भी वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं किन्तु उन्हें दुबारा मतदान की अनुमति नहीं दी जायेगी। रिमोट ई–वोटिंग तथा एजीएम के दौरान ई–वोटिंग के माध्यम से मतदान करने हेत् सदस्यों की पात्रता

रिमोट ई-वोटिंग अवधि 26 सितम्बर, 2023 को 10.00 बजे पूर्वा. प्रारम्भ होगी और 28 सितम्बर, 2023 को

निर्धारित करने की कट–ऑफ तिथि शुक्रवार 22 सितंबर, 2023 है। कोई व्यक्ति जो सुचना भेजे जाने के उपरान्त कम्पनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तिथि तक शेयर धारण करता है वह अपना मतदान करने के लिए investor@beetalfinancial.com पर निवेदन भेजकर लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त करने तथा ई–वोटिंग करने की विस्तृत प्रक्रिया एजीएम इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य कृपया अपने बैंक मैंडेट में किसी परिवर्तन की सूचना

अपने डिपॉजिटरी भागीदारों को सूचित करें जिनके द्वारा उनके डीमैट खाते अनुरक्षित किये जा रहे हैं। कम्पनी अथवा इसका आरटीए बैंक विवरण या बैंक मैंडेट में किसी परिवर्तन हेतू इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों से सीधे किसी निवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं करेगा। ऐसे परिवर्तन केवल सदस्यों के डिपॉजिटरी भागीदारों के पास ही परामर्शित होने हैं। भौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों कृपया अपने बैंक मैंडेट में किसी परिवर्तन की सूचना बीटल हाउस, तीसरी मंजिल, 99, मदनगीर, लोकल शॉपिंग सेंटर के पीछे, निकट दादा हरसुखदास मन्दिर, नई दिल्ली-110062 के पास भेजें।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार कृते ट्रिनिटी लीग इंडिया लिमिटेड पीयूष कुमार श्रीवास्तव

कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

तिथि : 05 सितम्बर, 2023 **DU Digital**

स्थान : नई दिल्ली

Global

डीयुडिजिटल ग्लोबल लिमिटेड पूर्व का डीयू डिजिटल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड सीआईएनः U74110DL2007PLC171939 पंजीकृत पताः सी-4, एसडीए कम्युनिटी सेंटर, हौज खास, नई दिल्ली, दिल्ली-110016

संपर्क नंबरः ०११-४०४५०५३३, वेबसाइट : Dudigitalglobal.com, मेलः cs@dudigItalglobal.com वार्षिक आम बैठक, ई-वोटिंग की जानकारी तथा बुक क्लोजर एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के सभी लागू प्रावधानों, एमसीए परिपत्र संख्या 10/2022 दिनांक

28.12.2022, सं. 14/2020 दिनांक 08.04.2020, संख्या 17/2020 दिनांक 13.4.2020, संख्या 20/2020 दिनांक 5.5.2020 और संख्या 20/2021 दिनांक 08/12/2021, सेबी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/7 दिनांक 12.5.2020, और सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर /पी/2021/11 दिनांक 15/01/2021 के अनुपालन र कंपनी के सदस्यों की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शुक्रवार, 29 सितम्बर, 2023 को दोपहर 12.30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) एवं अन्य ऑडियो-विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से एजीएम बुलाने की सूचना में निर्धारित व्यवसायों का लेन-देन करने के लिए आयोजित की जाएगी। सेबी के परिपत्रों के साथ पठित उक्त एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में, एजीएम की सूचना की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां 05 सितम्बर, 2023 को उन सभी सदस्यों के पास भेजी गई हैं, जिनकी ईमेल आईडी कंपनी/डिपॉजिटरी पार्टीसिपेंट केसाथ 01 सितम्बर,

returns/ पर, बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट https://vote.bigshareonline.com पर और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट अर्थात एनएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com पर, जहां कंपनी के शेयर सदस्य. जिनके पास भौतिक/इलेक्टॉनिक रूप में शेयर हैं और उनके ई–मेल पते कंपनी/उनके संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागिये के साथ पंजीकृत नहीं हैं, से अनुरोध है कि वे सदस्य (सदस्यों) द्वारा अपना नाम, पूरा पता, फोलियो नंबर, कंपनी के साथ धारित शेयरों की संख्या के साथ पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन कॉपी और निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी एक की स्व-सत्यापित स्कैन कॉपी अर्थात आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, चुनाव कार्ड, पासपोर्ट, उपयोगिता बिल या सदस्य के पते के प्रमाण के समर्थन में कोई अन्य सरकारी दस्तावेज का उल्लेख करते हुए विधिवत हस्ताक्षरित पत्र की स्कैन कॉपी

2023 तक पंजीकृत हैं। एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.dudigitalglobal.com/annual-

नोटिस ई-मेल के माध्यम से प्राप्त कर सकें। डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्य अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंटस के साथ अपना ईमेल पता अपडेट कर सकते हैं। कट-ऑफ तारीख यानी 22 सितम्बर, 2023 तक भौतिक रूप में या डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्य, सीएसडीएल वे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से एजीएम की सचना में निर्धारित विशेष व्यवसायों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट

cs@dudigitalglobal.com पर ईमेल द्वारा भेजकर अपने ई–मेल पते को जल्द से जल्द पंजीकृत करें ताकि वे एजीएम

डाल सकते हैं। सभी सदस्यों को सुचित किया जाता है किः एजीएम के नोटिस में उस विधि के बारे में निर्देश शामिल हैं जिससे शेयरधारक रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम के समय ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाल सकते हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) / अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमी

(ओएवीएम) के माध्यम से एजीएम में शामिल हो सकते हैं। . एजीएम की सूचना में निर्धारित सामान्य एवं विशेष व्यवसायों का लेनदेन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान के माध्यम से

रिमोट ई-वोटिंग 26 सितम्बर, 2023 को पूर्वाह्न 09:00 बजे (भा.मा.स.) शुरू होगी।

रिमोट ई-वोटिंग 28 सितम्बर, 2023 को शाम 05:00 बजे (भा.मा.स.) समाप्त होगी।

. इलेक्टॉनिक माध्यम से या एजीएम में मतदान करने की पात्रता निर्धारित करने की अंतिम तिथि 22 सितम्बर, 2023 है और जो व्यक्ति कट ऑफ तिथि तक सदस्य नहीं है, उसे इस सूचना को केवल सूचना के उद्देश्य से मानना चाहिए; सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक 23 सितम्बर, 2023 से 29 सितम्बर, 2023 (दोनों दिन शामिल) तक बंद सदस्य, जो कंपनी के शेयरों का अधिग्रहण करते हैं और एजीएम की सुचना भेजने के बाद कंपनी के सदस्य बन जाते है

ivote@bigshareonline.com पर या कंपनी को cs@dudioitalolobal.com पर अनुरोध भेजकर अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। यदि कोई सदस्य पहले से ही सीडीएसएल के साथ ई-वोटिंग के लिए पंजीकृत है तो वह अपने मौजूदा लॉगिन आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकता है। रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग से संबंधित मुद्दों और समस्याओं सहित किसी भी प्रश्न के मामले में, कृपया बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट www.evotingindia.com पर हेल्प खण्ड के तहत उपलब्ध Frequently Asked Questions (FAQs) तथा remote e-voting Manual देखें य https://vote.bigshareonline.com पर ई-मेल लिखें, जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ई-वोटिंग सुविधा से जुड़ी

और कट ऑफ तिथि तक शेयर धारण करते हैं, वे बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को

शिकायतों का समाधान करेगा या बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से 022–6263 8200 या टोल फ्री नं. 1800225533 डीयुडिजिटल ग्लोबल लिमिटेड के लिए

तिथि : 5 सितम्बर, 2023 स्थान : नई दिल्ली

(कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

मैक्सप्लस लॉजिस्टिक्स लिमिटेड (पूर्व में एमसी-स्टिच लिमिटेड विदित) CIN: L65999DL1985PLC022321 पंजी. कार्यालयरू 1, कम्युनिटी सेन्टर, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली–110065 टेली. नं. 011-49057869, ईमेल: mcstitchlimited@gmail.com,

वेबसाईट: www.maxpluslogisticslimited.com विडियो कान्फ्रेंस (वीसी)/अन्य ऑडियो विज्अल माध्यमों (ओएवीएम) द्वारा आयोजित की जाने वाली 38वीं वार्षिक साधारण सभा, रिमोट ई-वोटिंग के विषय में सूचना

तद्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के सदस्यों की 38वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) शनिवार, 30 सितम्बर, 2023 को 11.30 बजे पूर्वा. में एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसाय करने के लिए लिए केवल विडियों कान्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विज्अल माध्यमों (''ओएवीएम'') सुविधा द्वारा आयोजित की जायेगी। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या २/२०२२ दिनांक ५ मई, २०२२, परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 5 मई 2020, परिपत्र संख्या 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021, परिपत्र संख्या 19 / 2021 दिनांक 8 दिसंबर, 2021 और परिपत्र संख्या 21 / 2021 दिनांक 14 दिसंबर 2021 के अनसार एक सामान्य स्थान पर बैटक में सदस्य की भौतिक उपस्थिति के बिना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम (ओवीएएम) के माध्यम एजीएम आयोजित करने की अनुमति दी जायेगी। सदस्यगण केवल वीसी/ओएवीएम सुविधा द्वारा ही एजीएम में उपस्थित हो सकेंगे। वीसी/ओएवीएम सुविधा द्वारा उपस्थित होने वाले सदस्यों की गणना कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अंतर्गत कोरम के उद्देश्य से की

संबंधित सर्कयुलर के अनुपालन में एजीएम की सूचना तथा निदेशकों के रिपोर्ट, ऑडिटरों के रिपोर्ट तथा उसके साथ संलग्न किये जाने के लिये वांछित अन्य दस्तावेजों के साथ वित्त वर्ष 2022-23 के वार्षिक विवरणों सहित वार्षिक रिपोर्ट 2022–23 केवल ईमेल द्वारा कम्पनी के ऐसे सभी सदस्यों को भेजी जाएगी जिनके ईमेल पते कम्पनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्टस के पास पंजीकृत होंगे। उपरोक्त दस्तावेज कम्पनी की वेबसाईट अर्थात् www.maxpluslogisticslimited.com तथा स्टॉक एक्सचौंज जहां कम्पनी के शेयर सुचीबद्ध हैं, की वेबसाईट अर्थात www.msei.in के साथ ही नेशनल साथ सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड की वेबसाईट अर्थात् www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध कराई जायेगी। कम्पनी के पास उनके ईमेल पते की अनुपलब्धता के कारण वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रति प्राप्त नहीं

किये होने वाले सदस्यों सहित 23 सितम्बर, 2023 को शेयर धारित करने वाले सदस्य एजीएम की सुचना में दी गई निर्देशों का पालन कर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। ई–वोटिंग द्वारा मतदान का तरीकारू

क. सदस्यों के पास इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली ('ई–वोटिंग') द्वारा एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट व्यवसायों पर अपना मतदान करने का अवसर होगा।

ख. डिमैटेरियलाइज्ड पद्धत्ति, भौतिक पद्धत्ति में शेयरधारित करने वाले सदस्यों तथा ऐसे सदस्यों जिन्होंने अपने ई–मेल पते पंजीकृत नहीं कराये हैं, के द्वारा रिमोट वोटिंग (''रिमोट ई–वोटिंग'') की प्रक्रिया एजीएम की सचना में दी जायेगी।

ग. एजीएम में ई–वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी तथा एजीएम में उपस्थित होने वाले सदस्य जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना मतदान नहीं किये हों, एजीएम में मतदान करने में सक्षम होंगे। घ. ई–वोटिंग द्वारा मतदान करने का लागिन क्रेडिन्शियल्स ईमेल द्वारा सदस्यों को उपलब्ध कराया जायेगा। **ड**. वीसी/ओएवीएम द्वारा एजीएम में शामिल होने के लिये उसी लागिन केडेन्शियल्स का उपयोग किया जायेगा।

यदि आपने कम्पनी/डिपॉजिटरी के पास अपना ई–मेल पता पंजीकृत नहीं कराये हैं तो कृपया एजीएम में शामिल होने/ई—वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिये लॉगिन विवरणों के साथ वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने के लिये नीचे दिये गये निर्देशों को पालन करें क) भौतिक धारिता: कपया अपने फोलियों नं.. शेयरधारक का नाम. शेयर प्रमाणपत्र (फ्रान्ट एंव बैक) की

स्कैन प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्वत: सत्यापित स्कैन्ड प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्वत: सत्यापित स्कैन्ड प्रति) उपलब्ध कराते हुए हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की स्कैन की गई प्रति cs.mcstitch@gmail.com पर कम्पनी के ईमेल पते पर अथवा rdua@rcmcdelhi.com पर आरसीएमसी शेयर रजिस्ट्री प्रा.लि.–कम्पनी के रजिटार एवं शेयर अंतरण एजेन्ट (आरटीए) के पास भेजें। ख) डिमैट धारित: कृपया अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट (डीपी) से सम्पर्क करें तथा डीपी की सलाह से प्रक्रिया के अनुसार अपने डिमैट खाते में अपना पता पंजीकृत कराएें।

ग) कम्पनी किसी लाभांश की घोषणा नहीं कर रही है। घ) भौतिक पद्धत्ति में शेयर धारित करने वाले सदस्यों को डिमैट पद्धत्ति में अपनी धारिता को रुपांतरित

करना होगा क्योंकि भौतिक पद्धति में शेयरों का अंतरण सेबी द्वारा निषद्ध कर दिया गया है। सदस्यों से आग्रह है कि, एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट सभी टिप्पणियों तथा विशेष रूप से एजीएम में शामिल होने के निर्देशों, रिमोट ई–वोटिंग अथवा एजीएम के दौरान ई–वोटिंग द्वारा मतदान की प्रक्रिया का सावधानी पर्वक अध्ययन कर लें।

बोर्ड के लिये तथा उसकी ओर से मैक्सप्लस लॉजिस्टिक्स लिमिटेड संजीव चन्द्रा निदेशक एवं सीईओ

स्थान: नई दिल्ली तिथि: 04.09.2023

एजीएम की सचना में प्रावधानित हैं।

www.readwhere.com

तिथि: 05.09.2023 स्थानः दिल्ली

तिथि: 5.9.2023 स्थानः भोपाल

डीआईएन :00095561